

विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

लेखन कौशल

विज्ञापन लेखन

वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह-तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन है। विज्ञापन शब्द 'ज्ञापन' में 'वि' उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है- विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालायित हों और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाएँ। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टी.वी., रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, भवनों की दीवारें विज्ञापनों से रंगी दिखाई पड़ती हैं।

विज्ञापन लेखन कैसे करें -

विज्ञापन लेखन करते समय -

1. एक बाक्स-सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए।
2. दाएँ एवं बाएँ किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए।
3. बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए।
4. दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा-सा चित्र देना चाहिए।
5. स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए।
6. मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
7. ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी-सी तुकबंदी, जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए।

8. संपर्क करें/फ़ोन नं. का उल्लेख करें, जैसे- 011-23456789 आदि। अपना या सही फोन नं. देने से बचना चाहिए।

विज्ञापन लेखन के लिए छात्र यह उदाहरण देखें -

'रक्षक' हेलमेट बनाने वाली-कंपनी' की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना -

2. लुभावने शब्द → धमाका

3. वस्तु के गुणों का उल्लेख → मज़बूत
हल्के टिकाऊ
आकर्षक रंग
एवं डिजाइन

5. प्रेरक शब्द → स्टॉक सीमित

पर 15% की भार छूट

महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध

आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट

एक बार अवश्य खरीदें संपर्क करें—

कुछ और उदाहरण

1. नवांकुर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से पाँचवी तक के दाखिले शुरू हो गए हैं। इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए।

शिक्षार्थ आइए

नवांकुर प्ले स्कूल

क्या आप अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो
नवांकुर प्ले स्कूल

खेल खेल
में शिक्षा

स्वच्छ हवादार कमरे, खेल खिलौने



दाखिले के समय स्कूल बैग मुफ्त

2. 'रुचिकर परिधान शो रूम' को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार कीजिए।

सेल

सेल

मनमोहक एवं मनभावन कपड़ों का एकमात्र स्थान

रुचिकर परिधान शोरूम

आधुनिक फैशन मनभावन रंग

सभी आयु के लिए उपलब्ध

सबसे सस्ता, सबसे अच्छा

एब बार सेवा का अवसर अवश्य दें।

20% की
भारी छूट



3. आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं। इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए।

खुल गया

आनंद योग केंद्र

योग
भगाए रोग

क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान हैं?
तो आइए
आनंद योग केंद्र
प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण
प्राकृतिक वातावरण में
प्रवेश लेने पर योगकिट मुफ्त



योग करें
स्वस्थ रहें

4. 'कान्हा डेयरी' अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करवाना चाहते हैं। इस संबंध में आप उनके लिए विज्ञापन लेखन कीजिए।


खुल गई



गाय एवं भैंस का दूध
अलग-अलग उपलब्ध है

ताज़े दूध-दही की दुकान

कान्हा डेयरी



5. उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहता है। उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए।

आइए


उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम

आपका स्वागत करता है।

किराए में

वातानुकूलित कमरे, शुद्ध
शाकाहारी व्यंजन, वातानुकूलित
बसों की व्यवस्था

एक बार अवश्य आएँ उत्तर प्रदेश



6. आपने अपना नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। यहाँ प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थी आकर्षित हों, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए।

सीखिए

एक्सलेंट कंप्यूटर सेंटर

आज की ज़रूरत

आप भी सीखिए

अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण

सभी कंप्यूटर नए

आज ही प्रवेश लें।

कम फीस
उत्तम ज्ञान



7. 'सरस्वती पुस्तक भंडार' पुस्तक की बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन तैयार करवाना चाहता है। आप उसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए।

खुल गया

सरस्वती पुस्तक भंडार

हमारे यहाँ हर प्रकार की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकें उपलब्ध हैं।

12 रजिस्ट्रों के साथ
3 फ्री

MRP पर
10% की छूट

एक बार अवश्य पधारें।

